



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 22 अक्टूबर, 2021

आश्विन 30, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2

संख्या 1890 / 52-2-2021-2(255)-03टी०सी०

लखनऊ, 22 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

सा०प०नि०-74

वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1995) की धारा 14 की उपधारा (9) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उक्त अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों के अनुसार पाँच वर्ष की अवधि के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती हैं :-

- 1-श्रीमती बेगम नूर बानों उर्फ महताब ज़मानी अली खान, पूर्व संसद सदस्य, नूर महल, निकट कोठी खास बाग सिविल लाईन, रामपुर;
- 2-श्री मो० ज़रयाब जमाल रिजवी, अधिवक्ता, 677, निकट बड़ा इमामबाड़ा मोहल्ला, दानिशमन्दान, अमरोहा;
- 3-श्री सै० शबाहत हुसैन, अधिवक्ता, हल्लौर सिद्धार्थ नगर;
- 4-श्री सैय्यद वसीम रिजवी, मुतवल्ली 394 / 13ए, कश्मीरी मोहल्ला, सआदतगंज, चौक, लखनऊ;
- 5-श्री सैय्यद फ़ैज़ी, मुतवल्ली 110 हुसैनी मार्केट कर्बला तालकटोरा, निकट ए ब्लाक राजाजीपुरम, लखनऊ;
- 6-श्री अली ज़ेदी, लखनऊ;
- 7-श्री मौलाना रज़ा हुसैन, कश्मीरी मोहल्ला, लखनऊ;
- 8-डा० नरुस हसन नकवी, वरिष्ठ परामर्शी, जिला महिला अस्पताल, प्रयागराज।

आज्ञा से,
के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1890/LII-2-2021-2(255)-03T.C., dated October 22, 2021 :

No. 1890/LII-2-2021-2(255)-03T.C.

Dated Lucknow, October 22, 2021

IN exercise of the powers under sub-section (9) of section 14 of the Waqf Act, 1995 (Act no. 43 of 1995), the Governor is pleased to appoint the following persons as members of the Uttar Pradesh Shia Central Board of Waqf for the period of five years as per provisions of section 15 of the Act with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette* :-

1. Smt. Begum Noor Bano *urf* Mehtab Zamani Ali Khan, the former Member of Parliament, Noor Mahal, Near Kothi Khas Bagh, Civil Line, Rampur;
2. Shri Mohd Zaryab Jamal Rizvi, Advocate, 677 Near Bara Imambara Mohalla, Danishmandan Amroha;
3. Shri Syed Shabahat Hussain, Advocate, Hallaur, Siddharth Nagar;
4. Shri Syed Waseem Rizvi, Mutawalli 394/13A, Kashmiri Mohalla Saadatganj Chowk, Lucknow;
5. Shri Syed Faizi, Mutawalli 110 Husaini Market Karbala Talkatora Near A Block, Rajajipuram, Lucknow;
6. Shri Ali Zaidi, Lucknow;
7. Shri Maulana Raza Hussain, Kashmiri Mohalla Lucknow;
8. Dr. Narus Hasan Naqvi, Senior Consultant, District Women Hospital, Prayagraj.

By order,
K. RAVINDER NAIK,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 356 राजपत्र-2021-(808)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ-2021-(809)-200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।